

# FIRST TERMINAL EXAMINATION

ART (A)  
X

November - 2021

Time--3 Hours

[हिन्दी वर्जन]

M.M:-50

[Geometrical & Scale Drawing]

Roll No.....

नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखें।

भाग (क)

1. नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर छॉट करलिखे। [20×1=20]

i. जिस बहुभुज की 6 बराबर भुजाएं हो।

1. षट्भुज (2) बहुभुज (3) पंचभुज

ii. वह रेखा जो केंद्र से परिधि के किसी एक भाग तक खींची जाएं।

1. अर्ध व्यास (2) व्यास (3) चाप

iii. वृत्त की परिधि का आधे से कम भाग होता है।

1. चाप (2) वर्ग (3) त्रिभुज

iv. यह वह रेखा है जो केन्द्र से परिधि के दोनों सिरों को छुएंगे।

1. अर्ध व्यास (2) व्यास (3) चाप

v. यह वह पिंड है जो आयत के घेरे से एक भुजा के साथ बनता है इसके ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर वृत्त बनते हैं।

1. वर्ग (2) बेलन (3) पिण्ड (4) वृत्त

- vi. यह वह पिंड है जो चार समत्रिबाहु त्रिभुजों से घिरा हुआ होता है
1. शुण्डाकार (2) चतुष्फलक (3) घनक्षेत्र
- vii. यह वह पिण्ड है जिसके आधार पर वृत्त बनता है और शीर्ष एक बिन्दु होता है।
1. घनक्षेत्र (2) शंकु (3) शुण्डाकार
- viii. यह पिण्ड है जो गेंद की भांति गोल होता है, तथा हर ओर से वृत्त का रूप बनता है।
1. गोला (2) घन (3) वृत्त
- ix. वस्तु चित्रण में बैठने का प्रबन्ध कैसा होता है।
1. वृताकार (2) अर्धवृताकार (3) सीधियंक्ति
- x. वस्तु चित्रण में प्रकाश व छाया को मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है।
- (1.) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 6
- xi. वस्तु चित्रण में धरातल रेखा से दूसरी पंक्ति की दूरी कितनी होती है।
1. 2 फुट (2) 2.90 मिटर (3) 4 फुट (4) 8 फुट
- xii. वस्तु चित्रण में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिये।
1.  $\frac{1}{2}$  (2)  $\frac{1}{3}$  (3)  $\frac{3}{4}$  (4)  $\frac{1}{4}$
- xiii. चित्रकला को मुख्य कितने भागों में विभक्त किया गया है।
- (1) 4 (2) 2 (3) 6 (4) 3

xiv. इन्द्रधनुष में कितने रंग होते हैं।

- (1) 4      (2) 3      (3) 6      (4) 7

xv. डिज़ाइन के कितने भेद होते हैं।

- (1) 5      (3) 3      (4) 4

xvi. डिज़ाइन में कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखो।

- (1) 3      (2) 5      (3) 2

xvii. गोल रेखा से गिरी आकृति को।

- (1) वृत्त      (2) अर्धवृत्त      (3) चाप



xviii. जिसके ऊपर नीचे दोनों सिरों पर वर्ग बनते हैं तथा चार आँधे बनती हैं।

- (1) घनक्षेत्र      (2) वर्ग घनक्षेत्र      (3) वर्ग

xix. इनमें से शेडिंग पेंसिल है।

- (1) HB      (2) 2 B      (3) H

xx. इनमें से कौन सी आकृति त्रिभुज है।



भाग (ख)


2. निम्न प्रश्नोंकी ज्यामितीय रचनाएँ तैयार करें।

[4×3=12]

- I. एक बहुभुज की दो भुजाएं अपनी दिशा में दी है बहुभुज को पूरा करो (पंचभुज)
- II. सरल रेखा AB पर समअष्टभुज विशेष ढंग से बनाओ।
- III. दिए हुए वृत्त का केंद्र ज्ञात करो।
- IV. ज्ञात वृत्त की अर्थ परिधि के समान रेखा ज्ञात करो।
- V. दो समान वृत्तों की अतः स्पर्शरेखा खींचो।  
अथवा
- VI. वर्ग आकार शण्डाकार का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शण्डाकार अपने धरातल पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है वर्ग की भुजा लम्ब धरातल के समानांतर है। भुजा = 3 सै० मी० ऊचाई = 5 सै० मी०।

## भाग (ग)

3. दिये हुए दर्शन चित्र से "फाइल रैक" का सम्मुख, पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाओ।



पैमाना 1 सें० मी० = 10 सें० मी० ।

ल० = 100 सें० मी०

चौ० = 60 सें० मी०

ऊ० = 150 सें० मी०

अंक विभाजन

सम्मुख = 4 अंक

पार्श्व = 4 अंक

ऊपरी दर्शन = 5 अंक

पैमाना = 1 अंक

कागज बाँट = 3 अंक

लिखाई एवं सफाई = 1 अंक

कुल अंक = 18 अंक